

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		अक्टू 27	सितं 20	सितं 27	अक्टू 4	अक्टू 11	अक्टू 18	अक्टू 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	10711	3475	5662	3677	3099	3987	4445
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	21650	8242	5698	7262	8191	8176	7867
1.3 राज्य सरकारें	5701	20974	71688	69688	70088	63073	75533	94683
1.4 अन्य	88670	99139	94083	90440	89862	88511	84636	84488
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	78300	51781	44787	42339	40097	38664	39780
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	91001	37767	30674	32794	35358	31454	30680
2.3 राज्य सरकारें	4070	13556	13909	13909	14647	11983	14467	13595
2.4 अन्य	102311	81399	79152	78239	78367	77046	79882	81040
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	82167	84627	84526	84887	84987	85022	82642
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	187124	117499	122233	118548	112750	113087	115669
3.3 राज्य सरकारें	41487	48417	31022	28145	30738	32439	34933	34600
3.4 अन्य	165095	152709	183873	173241	173565	176263	172892	169689
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	126331	175422	167512	91586	221354	188558	162948
4.4 अन्य	442	831	811	449	107	338	4325	547
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती								
खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	887147	777119	747242	746773	733795	742733	759178

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।